



भाखडा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड

सैक्टर 19 बी, चण्डीगढ़-160019



प्रेस विज्ञप्ति दिनांक : 21.09.2016

विषय: बीबीएमबी में राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह एवं
हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन



श्री एस. के शर्मा, अध्यक्ष, बीबीएमबी पुरस्कार वितरण उपरांत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए ।

चण्डीगढ़ : बीबीएमबी सचिवालय में 1 सितम्बर, 2016 से 15 सितम्बर, 2016 तक "हिंदी पखवाड़ा" मनाया गया। श्री एस. के शर्मा, अध्यक्ष, बीबीएमबी ने 20.9.2016

टैक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट, चण्डीगढ़ के आडिटोरियम में आयोजित राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह में हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित हिंदी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार प्रदान किए। इसके साथ ही वर्ष 2015-16 के दौरान सरकारी काम-काज में हिंदी का सर्वाधिक प्रयोग करने वाले कर्मचारियों को भी नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।



श्री एस. के शर्मा, अध्यक्ष, बीबीएमबी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुरस्कार वितरित करते हुए ।

पखवाड़े के दौरान भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए उत्साहवर्धक वातावरण बनाने तथा उसे कायम रखने के लिए पाँच हिंदी प्रतियोगिताएं, नामतः हिंदी निबंध एवं अनुवाद प्रतियोगिता, हिंदी शब्द-ज्ञान प्रतियोगिता, हिंदी टंकण प्रतियोगिता, हिंदी नोटिंग व ड्राफ्टिंग प्रतियोगिता तथा

स्वरचित हिंदी काव्य पाठ प्रतियोगिता आयोजित की गई। इन प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले कार्मिकों को क्रमशः 3,000/- रुपये, 2,500/- रुपये तथा 2,000/- रुपये की राशि के पुरस्कार प्रदान किए गए। इसके इलावा हिन्दी भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें प्रतिभागियों को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए गए। इसके साथ ही वर्ष 2015-16 के दौरान सर्वाधिक सरकारी काम-काज हिंदी में करने वाले 32 कर्मचारियों को प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

इससे पूर्व बीबीएमबी द्वारा पहली बार हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिसमें जाने-माने कवि श्री अरुण जेमिनी, श्री दिनेश रघुवंशी, श्री सुदीप भोला, श्री शम्भु शिखर और सूफी जगजीत आमंत्रित किए गए थे। इन प्रख्यात हस्तियों ने अपनी प्रस्तुतियों से श्रोताओं से मंत्रमुग्ध किया।

इस अवसर पर श्री एस. के शर्मा ने सर्वप्रथम हिंदी प्रतियोगिताओं के विजेता कार्मिकों के साथ-साथ सभी प्रतिभागियों को बधाई दी और बताया कि "हिंदी दिवस" के अवसर पर 14 सितम्बर को बीबीएमबी को भारत सरकार द्वारा संचालित राजभाषा कीर्ति पुरस्कारों के अंतर्गत द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया है।

इस अवसर पर श्री वी. के. कालरा, सदस्य, विद्युत, श्री भारत भूषण, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी तथा बीबीएमबी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

श्री तरुण अग्रवाल, सचिव, बीबीएमबी ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।